

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2016/ III-274/ १९५
दिनांक : 18/10/17

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स गुलशन होम एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा0) लि0

भूखण्ड सं0 जीएच - 03ए, सैक्टर - 143,
नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद् श्री दीपक भेहता काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/87/10840 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में युप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 03ए, सैक्टर - 143, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद् के समूह / फर्म द्वारा प्रत्युत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समाप्त प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 20.09.2017 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत करने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण वायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 50,166.30 वर्ग मी0

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 20,066.520 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 10,134.281 वर्ग मी0 (20.20%)
पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (11 टॉवर्स)	= 6,290.369 वर्ग मी0 (12.54%)
वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (04 टॉवर्स)	= 3574.159 वर्ग मी0 (7.125%)
वर्तमान तक निर्मित कुल भू-आच्छादन क्षेत्रफल (15 टॉवर्स)	= 9864.528 वर्ग मी0 (19.66%)

एफ0ए0आर0 का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0	= 1,37,957.330 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0	= 1,37,932.857 वर्ग मी0
पूर्व में निर्मित एफ0ए0आर0(11 टॉवर्स)	= 96,959.258 वर्ग मी0
वर्तमान में निर्मित एफ0ए0आर0(04टॉवर्स-N,O,P,Q)	= 39,410.581 वर्ग मी0
वर्तमान तक निर्मित कुल एफ0ए0आर0(15 टॉवर्स)	= 1,36,369.839 वर्ग मी0

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory:

ड्यूलिंग यूनिट का विवरण

- कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स = 1527 यूनिट्स
- पूर्व में अधिभोग जारी ड्यूलिंग यूनिट्स(11 टॉवर्स) = 960 यूनिट्स
- वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स (04 टॉवर) = 398 यूनिट्स
- वर्तमान तक कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स(15 टॉवर्स) = 1358 यूनिट्स

प्रतिबन्ध

1. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, रेआ(Real Estate Regulation and Development Act) 2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृतियों के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. अग्रिमतान, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का स्थानखाल व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों /शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।

संलग्नक - भवन के समापन मानवित्र।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye Laws
Submitted for app. Please,

P. A.

A. A.

Architect

नाम

पद

नौएडा

अराम कल्याण रिझोर्स
मुक्त वास्तुशुद्धि विवेचन
केंद्र

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (युप हाउरिंग), नौएडा को सूचनार्थ।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

पंजीकृत द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/भु0वा0नि0/2018/ III-274 /1031
दिनांक : 27/4/18

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स गुलशन होम एप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा0) लि0

भूखण्ड सं0 जीएच - 03ए, सेक्टर - 143,

नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री दीपक मेहता काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या रीए/87/10840 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 03ए, सेक्टर - 143, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 19.12.2017 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेग्युलेशन तथा डायरेक्शन /भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेग्युलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-खासी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 50,166.30 वर्ग मी0

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल
 सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल
 पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 15 टॉवर्स)
 वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 02 टॉवर्स)
 सम्पूर्ण योजना में कुल निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल

= 20,066.520 वर्ग मी0

= 10,134.281 वर्ग मी0 (20.20%)

= 9864.528 वर्ग मी0(19.664%)

= 998.161 वर्ग मी0(1.989%)

= 10862.689 वर्ग मी0 (21.653%)

एफ0ए0आर0 का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0

= 1,37,957.330 वर्ग मी0

सम्पूर्ण योजना में रवीकृत एफ0ए0आर0

= 1,37,932.857 वर्ग मी0

पूर्व में निर्मित एफ0ए0आर0(15 टॉवर्स)

= 136369.839 वर्ग मी0

वर्तमान में निर्मित एफ0ए0आर0(02टॉवर्स - L&M)

= 9116.230 वर्ग मी0

कुल निर्मित एफ0ए0आर0(17 टॉवर्स)

= 145486.069 वर्ग मी0

डचूलग यूनिट का विवरण

- सम्पूर्ण योजना में रवीकृति डचूलिंग यूनिट्स
 - पूर्व में निर्मित डचूलिंग यूनिट्स (15 टॉवर्स)
 - वर्तमान में निर्मित डचूलिंग यूनिट्स (02 टॉवर)
 - सम्पूर्ण योजना में कुल निर्मित डचूलिंग यूनिट्स
- = 1527 यूटिस
 - = 1358 यूनिट्स
 - = 80 यूनिट्स
 - = 1438 यूनिट्स

प्रतिवर्द्ध -

1. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आवंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी सापें, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधाएँ तथा सेवाओं को योजना के पूर्व में रवीकृति/पुनरीक्षित के सापेक्ष प्राधिकरण की बिना पूर्व अनुमति के रथल पर किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको धरत कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. संदर्भित योजना में अनिश्चित, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ढोस अपशिष्ट प्रबन्धग, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निर्मित प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिवर्द्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवंटी संस्था पूर्णतया बाध्यकारी होगी।
5. अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि मैसर्स गुलशन होम्स एण्ड इन्कास्ट्रॉक्चर (प्रा०) लि० द्वारा ग्रीन बिल्डिंग हेतु 5% निःशुल्क अतिरिक्त एफ०ए०आर० प्रदान करने के क्रम में बिल्डर द्वारा नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्राविधिकों के अनुसार आवंटी संस्था ने आई०जी०बी०सी० द्वारा जारी किया गया ग्रीन बिल्डिंग(गोल्ड) प्रमाण को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराकर प्राधिकरण में जमा कराना होगा ऐसा न करने की दशा में तत्समय प्रभावी क्रय योग्य एफ०ए०आर० के देय शुल्क का 200% जमा करना होगा। यद्यपि बिल्डर द्वारा फ्लैट की सब-लीज निष्पादित कर दी गयी हो ऐसी दशा में भी बिल्डर शुल्क जमा करने हेतु बाध्य होगा।
6. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानविक में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असुहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।
8. आवंटी संस्था को पर्यावरण विभाग से जारी Consent To Operate Certificate इस अधिभोग प्रमाण पत्र के जारी होने के 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा करनी होगी।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

भवदीय,

Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.
Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (श्रृंग हालरिंग), नौएडा को सचनार्थ।

नाम ०.८.४११९
पद नौएडा २७५४११९

अधिकारी कृष्णार शिंका
नौएडा परिवर्तन विनियम
नौएडा

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory: